

KENDRIYA VIDYALAYA KAUSANI

MULTI-DISCIPLINARY PROJECT (MDP): 2022-2023



Name of the student:.....

Class & section:.....

Roll no.:.....

Theme:.....

Project title:.....

Linked subjects:

.....
.....

Guide teachers:

.....
.....

Date:.....

Signature:.....

Certificate

This is to certify that
student of class Section.....has successfully
completed her/his project on the
theme.....and title
..... under the guidance of ...
..... KV KAUSANI For the
academic session 2022-2023.

Date:.....

Teacher sign:

ACKNOWLEDGEMENT

I would like to express my heartfelt gratitude to
my subject teachers

.....
.....

For their guidance, my honorable Principal
..... For providing
me all the facilities in our school.

I would also like to thank my parents and friends
for helping me to complete this project.

Name of the student:.....

Date:.....

MULTIDISCIPLINARY PROJECT

THEME- Water

MAX. MARKS ALLOTTED -20

GUIDELINES FOR THE PROJECT :-

1. Complete and submit the project by 10 JUNE 2022
2. Write the project work on 'Project file sheets'. You can also prepare it in digital form(PPT).
3. You can use different colour pens except Red pen.
4. Write one side of the paper only (ruled side).
5. Think original, do experiments and data collection yourself with guidance of your family members, friends and teachers.

NOTE:- Do any two activities out of the four given in each subjects.


Subject- English

1. Write a self compose poem on water.

Example-





2. Write a conversational dialogue between two people on the topic water scarcity. Example-



3. Collect five articles from magazine or newspaper related to water pollution. Cut these articles and paste them. Example-



4. Make any five riddles based on water with answer.
Example



Note:- Do all these assign tasks in a scrapbook with a coverage.

Title-MULTIDISCIPLINARY PROJECT



बहुविषयक परियोजना- कार्य
विषय- हिंदी
परियोजना का विषय- जल

क्रियाकलाप1 .

जल के पर्यायवाची शब्द लिखो .

जल को अन्य भाषाओं (संस्कृत) अंग्रेजी ,उर्दू, तमिल, पंजाबी में (क्या लिखा या पुकारा जाता है पता करो ।

क्रियाकलाप .2

जल/पानी विषय पर कोई स्वरचित कविता लिखो ।

क्रियाकलाप .3

समाचार पत्रों में इस विषय पर प्रकाशित खबरों को चित्र सहित काटकर चिपकाइए।

क्रियाकलाप .4

आपके क्षेत्र में पीने योग्य पानी के स्रोत व उपलब्धता पर 50 -60 शब्दों में अपने विचार लिखें ।

Subject: EVS

THEME OF THE PROJECT – WATER

ACTIVITY - 1

1. Write the names of rivers of India, And which rivers has dams on them.

ACTIVITY - 2

Q 2 what do you mean by water pollution? Write a short essay on water pollution in 250words.

ACTIVITY - 3

Q 3 Make model on save water ?

ACTIVITY - 4


Q.4 write 5 slogans on save water, draw a poster on Save Water?



MODEL EXAMPLES


Activity 3.

- (i) Prepare a short video to show that 1 Litre is equal to 1000 cubic centimetre in the Metric System: Unit to measure liquids.
(Material to be prepare or required: 1 Litre filled water bottle, One cubic box of dimension 10x10x10 cm)
Helping picture: -



OR

- (ii) Prepare a short video to show that 1 ml is equal to 1 cubic centimetre in the Metric System: Unit to measure liquids.
(Material to be prepare or required: 1 ml filled dropper, One cubic box of dimension 1x1x1 cm)
Helping picture: -



Activity 4. Observe your activity for a day and fill the table accordingly.

(i) Take a printout of this page and fill in the table.

S.No	Items	Tick (✓) for used. Wrong (X) for not used.	Capacity in (ml or L)
1			
2			
3			
4			
5			